



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 2006/कार्तिक 25, 1928

No. 553]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2006/KARTIKA 25, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2006

सं. 113/2006-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 705(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 291 (अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 30 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्

(1)	(2)	(3)
“ 31.	<p>एयरबोर्न अल्टी वार्निंग एंड कंट्रोल (एडब्ल्यू एंड सी) सिस्टम कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित माल अपेक्षित</p> <p>(i) एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स के पुर्जे, एयरक्राफ्ट्स इंजिन, एयरक्राफ्ट्स इंजिन के पुर्जे तथा स्क्रा के प्रयोजनार्थ ग्राउंड हैंडलिंग एयरक्राफ्ट्स उपस्कर;</p> <p>(ii) रडार, ईएसएम, सीएसएम, आर डब्ल्यू आर, सीएमडीएस, एमएडब्ल्यू एस, संचार तथा उनसे संबंधित कलपुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे/बोर्ड, सिमुलेटर्स तथा संबंधित हार्डवेयर/साफ्टवेयर;</p> <p>(iii) मशीनें, जाँच उपस्कर सहित अन्य उपस्कर, यंत्र, फिटिंग तंत्र, पुर्जे, स्पेयर्स, जिक्स तथा फिक्चर्स, डायज, यंत्र, मोल्ड्स, एसेसरिज, कच्चे माल, कास्टिंग्स, फोरगिंग्स,</p>	<p>यदि,—</p> <p>(क) उक्त माल का आयात प्रोजेक्ट एयरबोर्न अल्टी वार्निंग एंड कंट्रोल (एडब्ल्यू एंड सी) कार्यक्रम के प्राधिकृत ऐसे कार्यशाला केन्द्रों जो किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो भारत सरकार के स्क्रा मंत्रालय में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, अभिहित किए जाये, द्वारा किया जाता है; और</p> <p>(ख) प्राधिकृत कार्यशाला केन्द्र संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क अथवा उप आयुक्त, सीमाशुल्क अथवा सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क को मामलानुसार आयात के समय प्रत्येक मामले में कार्यक्रम निदेशक, कार्यक्रम कार्यालय एडब्ल्यूएंडसी, सेंटर फॉर एयर बॉन सिस्टम, बंगलोर द्वारा विधिवत प्रमाणित संबंधित विवरण सहित उक्त माल की सूची प्रस्तुत करते हैं जो इस आशय का होता है कि -</p> <p>(i) वह माल जो कि उस सूची में वर्णित है वह प्रोजेक्ट एडब्ल्यूएंडसी के हेतु ही अपेक्षित है।</p> <p>(ii) सूची में उल्लिखित उक्त माल का आयात एडब्ल्यू एंड सी कार्यक्रम के अंतर्गत स्क्रा मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत है और उक्त माल का उपयोग केवल एडब्ल्यू एंड सी कार्यक्रम के लिए ही किया जायेगा।</p>

(1)	(2)	(3)
	पाइपिंग, टयूबिंग, कंज्यूमेबल्स, मोकअप, तथा मॉड्यूल्स (iv) कम्प्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, एसेसरिज तथा कंज्यूमेबल्स	स्पष्टीकरण: इस छूट में अंतर्विष्ट किसी भी उल्लेख 1 जनवरी, 2012 को या उसके बाद प्रभावी नहीं होगा।”

[फा. सं. 354/32/2006-टीआरयू]

जी. जी. पई, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं० 39/96-सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 291 (अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 110/ 2006-सीमाशुल्क, तारीख 20 अक्टूबर, 2006, सा.का.नि. 657 (अ) तारीख 20 अक्टूबर, 2006 द्वारा संशोधित की गई ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2006

No. 113/2006-CUSTOMS

G.S.R.705(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 291(E); dated the 23rd July, 1996, namely:-

In the said notification, in the Table, after S.No.number 30, and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“31.	The following goods, required for the Airborne Early Warning and Control (AEW&C) System Programme of Ministry of Defence,-	If,-
	i) aircrafts, aircraft parts, aircraft engines, aircraft engine parts, including ground handling equipment of aircrafts for defence use;	(a) the said goods are imported by authorised works centers of the Airborne Early Warning and Control (AEW&C) programme, as may be designated by an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Defence; and
	ii) radars, ESM, CSM, RWR, CMDS, MAWS, Communication and their related components/parts, Electronic components/boards, simulators and related hardware /software;	(b) the authorised works centre produces to the Joint Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the time of import, in each case, a list of the said goods with their relevant description duly certified by the Programme Director, Programme Office AEW&C, Centre for Air Borne System, Bangalore, to the effect that -
	iii) machinery, equipments including test equipments, instruments, fitting devices, components, spares, jigs and fixtures, dies, tools, moulds, accessories, raw materials, castings, forgings, piping, tubing, consumables, mockup and models;	i) the said goods mentioned in the list are required for the purposes of the AEW&C;
		(ii) the import of the said goods mentioned in the list are authorized by the Ministry of Defence under AEW&C programme and the said goods shall be used only for the purpose of the AEW&C programme.

(1)	(2)	(3)
iv)	computer hardware, computer software, accessories and consumables.	<i>Explanation.</i> – Nothing contained in this exemption shall have effect on or after the 1 st day of January, 2012".

[F.No. 354/32/2006-TRU]

G. G. PAI, Under Secy.

Note: The principal notification No.39/96-Customs, dated the 23rd July, 1996 was published vide number G.S.R. 291 (E), dated the 23rd July, 1996 and was last amended by notification No.110/2006-Customs, dated the 20th October, 2006 vide number G.S.R. 657 (E) dated the 20th October, 2006.